



SEE MORE JESUS • WANTTOSEEMORE.COM

प्रेरितां का जवाब — स्ट्रॉन्स नंबर सागे एक बाइबल अध्ययन

सवाल अर जवाब — विश्वास करो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ

मौलिक बाइबिल सिद्धांत — यीशु मसीह का सुसमाचार

सीधे-सादे शब्दां म् H

परमेश्वर नै तन्नै बणाया, अर परमेश्वर तन्नै प्यार करै सै। हरेक माणस नै गलती करी सै, अर गलती म्हारै ताहीं परमेश्वर तै अलग कर देवै सै। परमेश्वर नै अपने बेटे, यीशु मसीह ताहीं भेज्या। यीशु नै कदे कोए गलती न्ही करी, पर वो म्हारी गलतियां का दाम चुकाण खात्तर मरग्या। फेर परमेश्वर नै उस ताहीं मुर्दा म्ह तै जिवाल्या, अर वो इब जिन्दा सै। इब यो देख ले तन्नै के करणा सै। इस खुशखबरी पै अपने पूरे मन तै बिश्वास कर। अपने बुरे रस्तां तै मुड़ज्या — बाइबल इस ताहीं पश्चाताप कहवै सै। बपतिस्मा ले — यीशु मसीह के नाम म्ह पाणी के अन्दर जा — अर परमेश्वर तेरे पाप माफ कर देवैगा। परमेश्वर तेरे अन्दर रहण खात्तर अपना पवित्र आत्मा देवैगा। फेर हर रोज यीशु के पाछे चालता रहिये, दुसरे बिश्वास करण आळां कै गैल, अपनी जिन्दगी कै आखर तक। वो तन्नै सम्भाळैगा, अर वो तन्नै वो जिन्दगी देवैगा जो कदे खतम न्ही होवै।

शुरूआती बात

मित्र, सबसे बड़ा सवाल जो कोई भी पूछ सकता है, वो उस दिन पूछा गया था जब कलीसिया का जन्म हुआ था। जिन लोगों ने सच्चाई सुनी, उनका दिल छलनी हो गया, अर वे पुकार के बोले, हमने के करणा चाहिए? उन्हें ये नहीं बताया गया के बस कुछ महसूस कर लो, या एक प्रार्थना बोल दो अर फेर पहलां की तरहां जिंदगी चलती रहन दो। उन्हें एक जवाब दिया गया जिसमें एक दरवाजा था, अर उस दरवाजे में एक कदम था जो पार करना था। विश्वास करो — पूरे दिल से — के यीशु मसीह तुम्हारे पापों खात्तर मरा अर मरे हुए म्ह से जी उठ्या, क्यूंके विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। पश्चाताप करो — अपने पूरे दिल से अपने पाप म्ह से मुँह मोड़ लो। यीशु मसीह के नाम म्ह बपतिस्मा लो, अपने पापों की माफी खात्तर — उसके साथ गाड़े जाओ, अर नई जिंदगी जीण खात्तर उठाए जाओ। पवित्र आत्मा का उपहार पावो — क्यूंके जिसके म्ह मसीह की आत्मा नहीं, वो उसका नहीं है। फेर दरवाजे पर ही मत रुक जाओ: प्रेरित बचाए गए लोगों ने ये भी सिखाते हैं के उसके साथ आगे चालते रहो, अर आखिर तक टिके रहो — क्यूंके मुक्ति सच्चाई म्ह शुरू होवै है, सच्चाई म्ह आगे चालै है, अर सच्चाई म्ह ही खतम होवै है। प्रार्थना एक बढ़िया शुरुआत है, अर तू इसे घड़ी उसे कर सकता है; पर प्रेरितां नै जो कुछ भी जवाब दिया, वो सब सुण, अर उसे कर, तो तू बच जावेगा। यही रास्ता है भीतर आणे का। इसे अपने खुद खात्तर पढ़ अर इस पर चाल।

तीन सवाल जिनका जवाब यो अध्ययन देवै सै:

1. जब माणस दिल तै छिद्गे अर रोळा मचाकै बोल्ले, "म्हारे तै के करण चाहिये?", तो प्रेरितां नै के जवाब दिया?
2. मन तै बिश्वास करण अर मुँह तै मान्यता देण का के मतलब सै, अर यीशु मसीह के नाम म्ह बपतिस्मा लेणा के करै सै?

3. मसीह नै हमारे पापां नै धोण खात्तर के दुख सह्या, अर पवित्र आत्मा का वरदान किसनै वादा करया गया है?

I. सवाल — भाईयो, हमनै के करणा चाहिए?

प्रेरितों के काम 2:36 “आखर इस्राएल का सारा खानदान पक्की तरियां तै जाण लेवै के परमेसवर नै उस्से यीशु ताहीं जिस ताहीं थमनै क्रूस पै चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया अर मसीह भी।” (37) जिब माणसां नै यो सुण्या, तो बिश्वास होग्या था के उननै गलत काम करया सै, अर वे पतरस अर बाकी प्रेरितां तै बुझ्झण लागे, “हे भाईयो, हम के करा?”

उनके हिरदे म चोट लागी --> हे भाईयो, म्हें के करा?

II. आधार — मसीह मरया, अर उसका लोहू पाप ते धोवै था

A. रोमियों 5:8 पर परमेसवर म्हारे पै अपने प्यार की भलाई इस तरियां तै साबित करै सै, के जिब हम पापी ए थे, जिब्बे मसीह यीशु म्हारे खात्तर मरया।

जिब हम पापी ही थे --> मसीह म्हारे खात्तर मरया।

B. प्रकाशित वाक्य 1:5 अर यीशु मसीह जो बिश्वास जोगा गवाह अर मरे होया म्ह तै जी उठण आळा म्ह तै जेठ्ठा अर धरती के राजयां का हाकिम सै, उसकी की ओड़ तै थारे ताहीं अनुग्रह अर शान्ति मिल्दी रहवै। वो म्हारे तै प्यार करै सै, अर उसनै अपने लहू के जरिये म्हारे ताहीं पाप तै छुटाया सै। **[G3068 louo ■]**

बफादार गवाह + मरे हुए म्हां तै पहलौठा --> जिसनै म्हारे तै प्यार करया --> अर अपने लोहू से म्हारे पापां नै धो दिया।

C. इफिसियों 1:7 यीशु मसीह के लहू बहाए जाण के कारण हम छुड़ाए गये, जिसका मतलब यो सै के म्हारे सारे पाप माफ होए। परमेसवर के भोत अनुग्रह के मुताबिक मसीह म्ह उसके लहू के जरिये छुटकारा यानी पापां तै माफी मिलै सै।

जिनमें हमनै उसके खून के जरिये छुटकारा मिल्या = पापां की माफी।

(मेरे निजी विचार — छुटकारा और पापां की माफी उस्से (उसमें) मैं सै। इस्से खात्तर हम उसमें बपतिस्मा लेतें हैं: वो लहू जो हमनै धोवै सै, और वो माफी जो उसनै खरीदी सै, वे उस्से एक जन में मिलती हैं जिसमें हम बपतिस्मा लेतें हैं।)

D. Isaiah 52:14

उसका मुखड़ा किसी भी मात्रस नै टक्कर ना दे, इतना बिगड़ग्या था --> अर उसका रूप मात्रस के बालकां नै भी टक्कर ना दे।

E. Isaiah 50:6

मैं नै अपनी पीठ मारणीयां कान्ही करी + अपने गाल बाल उखाड़णीयां कान्ही --> मैं अपनो मुँह लाज अर थूकबाजी तै नहीं छिपाया।

F. Psalm 22:14

मेरी सारी हाडू उखड़ गई --> उननै मेरे हाथ अर पैर बेध दिये --> वे मेरे कपड़े बांट लेवें + मेरे वस्त्र पै चिट्ठी गरें।

G. Isaiah 53:4

वो म्हारे अपराधां के खात्तर घायल होया + म्हारे अधर्म के खात्तर कुचळया गया --> उसकी चोटों तै म्हारे ठीक होग्या।

H. मत्ती 27:28 अर उसके लते तारके उस ताहीं लाल रंग का चोगा पहिराया, (29) अर काण्डयाँ का ताज गुन्दके उसके सिर पै धरया, अर उसके सोळे हाथ्यां म्ह सरकण्डा दिया अर उसके आगै गोड्डे टेक के उसका मखौल उड़ाण लागे अर कहा, “हे यहूदिया परदेस के राजा, नमस्कार!” (30) अर उसपै थुक्या; अर वोए सरकण्डा लेके उसके सिर पै मारण लागे।

उसके सिर पै काँटा का ताज --> उन्नै उसपै थूका + उसके सिर पै मारा।

I. लूका 22:44 वो और घणे संकट म्ह काल होके और भी मन तै प्रार्थना करण लाग्या, अर उसका पसीना मात्रो लहू की बड्डी-बड्डी बूँदां के जू धरती पै गिरै था।

अर उसका पसीना मात्रो लहू की बड्डी-बड्डी बूँदां के जू धरती पै गिरै था।

J. यूहन्ना 19:34 पर सिपाहियाँ म्ह तै एक नै बरछी तै उसका पंजर चीर दिया, अर उस म्ह तै जिब्बे लहू अर पाणी लिंकड़या।

एक भाले नै उसकी बगल बँध दी --> अर फेर झट उसतै लहू अर पाणी लिंकळ्या।

(मेरे निजी विचार — धीरे-धीरे पढ़ियो, अर जाण लियो के यो तेरे खात्तर ए था। जिस मुँह नै तारे बणाए, वो पिच्छाण ताई भी बिगड़ग्या। जिस पीठ पै सारी सृष्टि टिकी सै, वो कोड़े तळै फाड़ दी गई। जिन हाथां नै कोढ़ी नै ठीक करया, उननै लोहे की कील्लां तै छेद दिया। उसकी हड्डी-हड्डी गिणी जा सकै थी, इसा उघड़ग्या था। एक भी कील ठोकण तै पैहले खून-सा पसीना टपकण लाग्या था। वो हरायो न्ही गया था: उसनै अपनी पीठ खुशी तै दे दी; उसनै अपना मुँह न्ही छिपाया। हरेक कोड़ा तेरे पाप का बोझ था जो उसपै धरया गया, हरेक घाव तेरी बुराई थी, हरेक बूँद तेरा कर्जा थी। अर जद सारा काम पूरा होग्या, तो उसकी बगल तै लहू अर पाणी बहरया — लहू तेरे धोवण खात्तर, अर पाणी तेरे नै उस म्ह गाड़ण खात्तर। तो जद तन्नै कहा जावै के पश्चाताप कर अर बपतिस्मा ले, तो तेरे तै कोए कठण काम करावण की मांग न्ही करी जा री। तेरे तै मांग्या जा रहया सै के तू घुटणां पै बैठके वो चीज कबूल कर ले, जिसकी कीमत उसनै इतनी सारी चुकाई थी।)

III. प्रभु यीशु मसीह पै बिश्वास कर — अर अपने मुँह तै उसका अंगीकार कर

A. Genesis 15:6

उसने यहोवा पै बिश्वास करया --> अर याहे बात उसकी धार्मिकता के खात्तर गिणी गई।

B. रोमियों 4:3 पवित्र ग्रन्थ के कहवै सै? न्यू के “अब्राहम नै परमेसवर के वादे पै बिश्वास करया, अर परमेसवर नै उसके बिश्वास के कारण उस ताहीं धर्मी बणा दिया।”

अब्राहम नै परमेश्वर की बात मान ली --> अर याहे बात उसकी धार्मिकता के खात्तर गिणी गई।

C. Numbers 21:8

जो कोए भी डसया गया, जिब वो उसकी ओड़ देखे सै --> तो वो जिन्दा रहवैगा।

D. यूहन्ना 3:14 अर जिस ढाळ तै मुसा नबी नै जंगल-बियाबान म्ह कांस्सी का साँप बणाकै उस ताहीं ऊँचे पै चढ़ाया, उससे ढाळ तै जरूरी सै के मै माणस का बेटा भी ऊँचे पै चढ़ाया जाऊँ। **[G4100 pisteuo ■]** (15) ताके जो कोए मेरे पै बिश्वास करै वो अनन्त जीवन पावै। (16) क्यूँके परमेसवर नै दुनिया के माणसां तै इसा प्यार राख्या के उसनै अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताके जो कोए उसपै बिश्वास करै, वो नाश कोनी होवै, पर अनन्त जीवन पावै।

जिस तरियां मूसा ने साँप नै ऊँचा करया --> उसी तरियां मनुष्य के बेटे नै भी ऊँचा करया जाणा है --> जो कोई भी उसपे विश्वास करे, वो नाश ना हो, पर अनन्त जीवन पावै।

(मेरे निजी विचार — इन दोनू ने साथ-साथ धर के देख, अर इनसे सीख। जंगल में, मरण वाले माणसां ने इलाज कमाणे नै नही कहा गया था। उन्हे कहा गया के श्रद्धा के साथ उस चीज़ की तरफ देखें जिसे परमेश्वर नै खम्भे पर ऊँचा करया था — अर वे जीवित हो गए। यीशु कहवै हैं के वो खम्भा उसके अपने क्रूस की तस्वीर थी। बिश्वास करना ही देखना है। कोई भी माणस किसे बात का पछतावा करण या किसे बात का हुकम मानण से पहल्या, उसे अपने पूरे मन से उस ऊँचे करे गए ईश्वर की तरफ देखणा चाहिए, अर उसपै भरोसा राखणा चाहिए। अर देख अब्राहम के: उसनै बिश्वास करया, अर परमेश्वर नै उसे धर्म मान लिया — कानून से पहल्या, किसे विधि-विधान से पहल्या। बिश्वास ही वो जगह है जित तै सब कुछ शुरू होवै है। पर देख के बिश्वास किती तेजी से अगले पदां में हुकम मानण की तरफ बढ़ता है — उससे रात, उससे घड़ी।)

E. रोमियों 10:8 पर के कहवै सै, योए के “परमेसवर का वचन तेरे धोरै सै, ताके तू उसनै अपने मुँह तै अंगीकार कर सकै अर अपने मन म्ह राख सकै,” यो वोए बिश्वास का वचन सै, जो हम प्रचार करा सां। **[G3670 homologeo ■]** (9) जै तू माणसां के स्याम्ही यीशु नै प्रभु मान ले, अर अपने मन तै बिश्वास करै के परमेसवर नै उस ताहीं मरे होया म्ह तै जिन्दा करया, तो परमेसवर तन्नै बचावैगा। (10) क्यूँके हम अपने मन तै बिश्वास करां सां, तो हम परमेसवर के जरिये धर्मी बणाए जावै सै, अर हम मुँह तै अंगीकार करां सां, के हम मसीह पै बिश्वास करां सां, तो इस करके हम बच जावांगे।

अपणे मुँह तै प्रभु यीशु का अंगीकार कर + अपने मन म्ह बिश्वास कर के परमेश्वर नै उस ताहीं मुर्दा म्ह तै जियाल्या --> तन्नै उद्धार मिलैगा।

F. रोमियों 10:13 क्यूँके पवित्र ग्रन्थ म्ह लिख्या सै के “जो कोए प्रभु का नाम लेवैगा, वो बचाया जावैगा।”

क्यूँके पवित्र ग्रन्थ म्ह लिख्या सै के “जो कोए प्रभु का नाम लेवैगा --> वो बचाया जावैगा।

G. रोमियों 10:17 पर मसीह के बारे म्ह वचन सुणण तै बिश्वास होवै सै।

बिश्वास सुणण तै आवै सै --> अर सुणणा परमेश्वर के वचन तै।

H. प्रेरितों के काम 16:29 फेर दरोग्गा दिवां मँगाकै भित्तर आया, अर काम्बदा होया पौलुस अर सीलास के आगै पड्या, **[G4100 pisteuo ■]** (30) अर उन ताहीं बाहरणै ल्याकै बोल्या, “हे भले माणसों, उद्धार पाण के खात्तर मै के करूँ?” (31) उननै कहा, “प्रभु यीशु मसीह पै बिश्वास कर, तो तू अर तेरा कुण्बा उद्धार पावैगा।” (32) अर उननै उस ताहीं अर उसके सारे घर के माणसां ताहीं प्रभु का वचन सुणाया। (33) रात नै उससे बखत उसनै उन ताहीं ले जाकै उनके घाव धोये, अर उसनै अपने सारे माणसां सुधा जिब्बे बपतिस्मा लिया।

हे महाशयों, म्हारे उद्धार पाणे खात्तर मन्नै के करणा चाहिए? --> प्रभु यीशु मसीह पै बिश्वास कर --> अर उसनै अर उसके सारे परिवार नै फौरन बपतिस्मा लिया।

(मेरे निजी विचार — सारी बाइबिल में सिर्फ दो बार यही सवाल सीधा बोल के पूछा गया है: एक बार फिलिप्पी की जेल में, और एक बार पिन्तेकुस्त पर प्रेरितों के काम अध्याय 2 में। दोनों जवाबां को साथ-साथ धर के देख। पिन्तेकुस्त की भीड़ पहलम ही सुण चुकी थी अर पहलम ही मान चुकी थी — इसी कारण उनके हिरदे में चोट लागी — इसलिए पतरस ने आगली सीढ़ी से शुरू करी: पश्चाताप करो, अर बपतिस्मा लो। जेलदार अभी कुछ नहीं जानता था, इसलिए पौलुस ने पहली सीढ़ी से शुरू करी: बिश्वास करो — अर फेर उसे प्रभु का वचन कहा, अर राति की उसी घड़ी वो मान्स बपतिस्मा ले लिया। दो शुरुआत, एक ही राह। बिश्वास करना बपतिस्मे का बैरी नहीं, अर बपतिस्मा बिश्वास का बैरी नहीं; श्रद्धा वो हिरदा है जो हुकम मानता है, अर उसी घड़ी काफी होंदी है।)

I. इब्रानियों 11:6 माणस परमेसवर नै खुश कर सकै सै, जै वे उसपै बिश्वास करै तो। क्यूँके परमेसवर के धोरै आणआळे माणस नै बिश्वास करणा चाहिये के वो परमेसवर सै, अर वो पूरी सच्चाई तै अपने टोह आळे नै ईनाम देवै सै।

बिश्वास के बिना परमेश्वर नै राजी करणा असम्भव सै --> परमेश्वर के धोरै आण आळे नै बिश्वास करणा जरूरी सै के वो सै।

IV. जवाब — पश्चाताप कर, बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा नै पा

प्रेरितों के काम 2:38 पतरस नै उनतै कहा, “पाप करणा छोड़ दो, अर थारे म्ह तै हरेक अपने-अपने पापां की माफी के खात्तर यीशु मसीह के नाम तै बपतिस्मा लेवै, जिब थम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। **[G859 aphasis ■]** **[G907 baptizo ■]**

[G3340 metaneo] (39) क्यूँके या प्रतिज्ञा थम, अर थारी ऊलादां, अर उन सारे दूर-दूर के आदमियाँ खात्तर भी सै जिन ताहीं प्रभु म्हाला परमेसवर अपने धीरे बुलावैगा।”

पाप तै पश्चाताप कर + यीशु मसीह के नाम पै बपतिस्मा ले पापां की माफी खात्तर --> तन्नै पवित्र आत्मा का दान मिलैगा।

V. पश्चाताप करो

A. प्रेरितों के काम 3:19 इस करके, पाप करणा छोड़ दो अर बोहड़ आओ के थारे पाप मिटाए जावै, जिसतै प्रभु के स्याम्ही तै सुख-चैन के दिन आवै,

पश्चाताप करो + मन फिराओ --> ताके थारे पाप मिटा दिए जावै।

B. लूका 13:3 मै थमनै कहूँ सूँ के ना, पर जै थम पाप करणा न्ही छोड़ोगे तो थम भी इस्से तरियां नाश होओगे।

जब तक थम पाप तै मन नहीं फेरोगे --> थम सारे भी योंहीं नाश हो जाओगे।

C. 2 कुरिन्थियों 7:10 क्यूँके परमेसवर की ओड़ तै मिलण आळा दुख, पापां नै छोड़ण का कारण बणै सै, जिसका नतिज्जा छुटकारा सै, उस तरियां के दुख का पछतावा कोनी होन्दा। पर दुनिया तै मिलण आळा दुख अनन्त मौत का कारण बणै सै।

क्यूँके परमेसवर की ओड़ तै मिलण आळा दुख, पापां नै छोड़ण का कारण बणै सै --> पर दुनिया तै मिलण आळा दुख अनन्त मौत का कारण बणै सै।

(मेरे निजी विचार — इसनै छोड़ा शब्द ना समझ लिये, जो एक बार बोल दिया अर खतम हो गया। पश्चाताप करो, अर इसे जैसे शब्द, सारी बाइबल म्हा एक सौ बारह बार गूँजते हैं — पुराने नियम म्हा छियालीस बार, अर नये नियम म्हा छसठ बार। नबियाँ की पुकार "मुड़ो, मुड़ो" तै लेकर, यूहन्ना की पुकार "पश्चाताप करो" तक, प्रभु स्वयं तक, प्रेरितां तक, अर जी उठे मसीह के कलीसियाओं के लिखे हुए तक — एक ही बुलावा उत्पत्ति तै प्रकाशितवाक्य तक चालू रहवै है: मुड़ो। परमेश्वर नै लोगां नै इसकी ओर बुलाना कदी नहीं छोड़ा। अर कोई भी इसे करना छोड़ ना सकै।)

VI. मसीह म्हा बपतिस्मा लेओ पापां की माफी खात

A. प्रेरितों के काम 22:16 इब क्यातै वार करै सै? उठ, बपतिस्मा ले, अर उसका नाम लेके अपने पापां की माफी पा ले।”

[G907 baptizo]

उठ, अर बपतिस्मा ले, अर प्रभु का नाम ले के अपने पापां नै धो डाल --> प्रभु का नाम पुकारते होए।

B. रोमियों 6:4 इस करके जब हम बपतिस्मा लेवां सां, तो हम उसके साथ मर जावां सां, अर उसके साथ गाड़ जावां सां, ताके जिस तरियां मसीह पिता परमेसवर की महिमा के जरिये मरे होया म्हा तै जिन्दा करया गया, उस्से तरियां ए हमनै भी नया जीवन जीणा चाहिए।

बपतिस्मे के जरिये मरण में उसके गेल्यां गाड़े गये --> ताकि जिस तरियां मसीह मरे म्हा सँ जिन्दा होया, उस्से तरियां हम भी नई जिन्दगी म्हा चालें।

C. कुलुस्सियों 2:12 जब थारा बपतिस्मा होया (यो थारा पापमय सुभाव दिखावै सै) तो थम मसीह की तरियां गाड़े गये, अर जिसा मसीह जिवाया गया, अर उस्से तरियां थम भी जिन्दा करे गए (नये सुभाव तै)। यो इस खात्तर होया क्यूँके थम बिश्वास करो सों, के परमेसवर नै मसीह ताहीं अपनी शक्ति तै मुर्दा म्हा तै जिवाया।

बपतिस्मा में उसके गेल्या गाड़या गए --> परमेश्वर के काम की सामर्थ पै विश्वास के जरिये उसके गेल्या जिवाड़या गए।

D. 1 पतरस 3:21 उस्से पाणी का उदाहरण भी, यानिके बपतिस्मा, यीशु मसीह के जी उठण के जरिये, इब थमनै बचावै सै, इसतै देह का मेल दूर करण का मतलब न्ही सै, पर शुद्ध अन्तरात्मा तै परमेसवर के पाछै हो जाणा सै।

बपतिस्मा भी इब थमनै बचावै सै = शुद्ध अन्तरात्मा तै परमेसवर के पाछै हो जाणा सै।

(मेरे निजी विचार — बचावण्या वाला पाणी नहीं है। यह भगवान की ओर एक अच्छी अंतरात्मा का जवाब है: बपतिस्मा की आज्ञाकारिता के जरिये अंतरात्मा पर लागू करया गया लहू, और नये जीवन खात्तर उठाया गया मनुष्य।)

2 Kings 5:10

जा, यर्दन नदी म्हा सात बार नहा ले --> तेरा माँस फेर तायं होज्या ओगा, अर तू शुद्ध होज्यागा।

2 Kings 5:13

जदी नबी नै तेरे नै कोई बड़ा काम करने का कहा होता, तो के तू ना करता? --> तो जब वो कहवै, धोले और शुद्ध हो जा, तो और भी क्यों ना करेगा?

2 Kings 5:14

उसने यरदन म्हां सात बार डूबकी लगाई --> उसका माँस फेर एक छोटे बाळक के माँस-जिया होगया, अर वो शुद्ध होगया।

(मेरे निजी विचार — या तै वोए सच्चाई सै जो घणे साल पहल्यां दिखाई गई थी। नामान एक बड़ा आदमी था, अर कोढ़ी था, अर उस ताहीं एक छोटा-सा काम करण नै कहा गया: जाके यरदन म्हा सात बार नहा ले, अर साफ हो जागा। वो गुस्सा होगया, अर किसे बड़े चमत्कार की उम्मीद करण लाग्या, अर सोच्या के अपने देश की नदियाँ इस्राएल के पाणी तै भी बढ़िया सैं — जिस तरियां आज भी माणस इसे सीधे हुकम पै ठोकर खा ज्यां सैं। पर उसनै ठीक करण आळा यरदन का पाणी कोनी था; ये तो परमेश्वर के बताए होड़ पाणी म्हा उसके वचन की आज्ञा मानणा था। वो गया अर सात बार डूबकी लाई, अर उसकी चाम एक छोटे कान्ही की चाम की तरियां होगी। इस्से तरियां माणस दुबारा जन्म लेवै सै: अपने किसे बड़े यतन तै न्ही, बल्के आज्ञा मानके नीचे जाणे तै, अर एक नया बालक बणके, साफ होके ऊपर आणे तै।)

E. मरकुस 16:16 जो बिश्वास करै अर बपतिस्मा लेवै उससे का उद्धार होवैगा, पर जो बिश्वास कोनी करैगा वो कसूरवार ठहराया जावैगा; [G907 baptizo ■]

जो कोई बिश्वास करै और बपतिस्मा लेवै --> उसका उद्धार होगा।

F. यूहन्ना 3:5 यीशु नै जवाब दिया, “मै तेरे तै सच कहूँ सूँ, जिब ताहीं कोए माणस पाणी अर आत्मा तै ना जन्मे तो वो परमेशवर के राज्य म्ह बड़ नही सकदा। [G1080 gennao ■]

जब तक कोई माणस पाणी और आत्मा तै ना जन्मे --> वो परमेश्वर के राज्य म्ह नहीं जा सकदा।

G. 1 गलातियों 3:27 अर थारे म्ह तै जितना नै मसीह के नाम म्ह बपतिस्मा लिया सै, उननै नई जिन्दगी पा ली सै। [G907 baptizo ■]

अर थारे म्ह तै जितना नै मसीह के नाम म्ह बपतिस्मा लिया सै --> उननै नई जिन्दगी पा ली सै।

H. तीतुस 3:4 पर फेरभी परमेशवर जो म्हारा उद्धारकर्ता सै उसनै अपणी दया अर प्यार हम माणसां पै दिखाया। (5) उसनै म्हारे ताहीं पापां के दण्ड तै बचाया, अर यो धार्मिक काम्मां के जरिये नही होया जो हमनै खुद करे, पर उसनै म्हारे पै दया करी। उसनै म्हारे ताहीं पवित्र आत्मा देण के जरिये बचाया, जो म्हारे पापां नै माफ करै सै, अर हमनै नई जिन्दगी अर नया सुभाव देवै सै।

हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की दयालुता अर प्रेम प्रगट हुया --> धार्मिकता के कर्मा के जरिये नहीं --> पर उसकी दया के मुताबिक उसने हमनै नये जन्म के स्नान से उद्धार दिया।

I. इफिसियों 2:8 जिब थमनै परमेशवर पै बिश्वास करया तो उसनै अपणे अनुग्रह के जरिये थारा उद्धार करया सै, थारा उद्धार थारी ओड़ तै नही, बल्के परमेशवर ओड़ तै दान सै। [G5485 charis ■] (9) यो इस करके नही होया के थमनै कोए भला काम करया सै, अर थम उसपै घमण्ड करो। (10) क्यूँके हम उसके बणाए होए सां, अर मसीह यीशु म्ह उन भले काम्मां के खात्तर रचे गये जिन ताहीं परमेशवर नै पैहले तै म्हारे करण के खात्तर तैयार करया।

अनुग्रह से थम विश्वास के जरिये उद्धार पाया हो = यो परमेश्वर का दान है --> कर्मा का नहीं, इसलिए कोई मान्स घमंड ना करै --> हम उसकी सिरजी हुई चीज़ां, मसीह यीशु में भले काम करण खात्तर बणाये गये।

(मेरे निजी विचार — इन दोनों सच्चाईयां नै साथ पकड़ ले, अर इनमें कोए टकराव कोनी। अनुग्रह एक भेंट सै; बिश्वास उसनै अपणा ल्ये सै; अर बपतिस्मा कोए काम कोनी जो कुछ कमावै, जिस तरियां नामान नै नदी म्ह डुबकी लगाके अपणा चंगा होणा कोनी कमाया, या मरण आवे नै पीतल के साँप कान्ही देखके अपणी जिंदगी कोनी कमाई। परमेशवर नै सब कुछ दे दिया; आदमी सिर्फ हुकम मानै अर पावै सै। जो आदमी पाणी तै बाहर आवै सै, उसके पाच घमंड करण नै कुछ कोनी सै — उसनै दफनाया गया, अर परमेशवर नै उसनै जिन्दा करया। यो बात पैहलम 1 पतरस 3:21 के बारे म्ह कही गई थी, अर यहां भी सच सै: यो पाणी कोनी सै, अर यो म्हारे खुद के हाथां के काम भी कोनी सै। यो अनुग्रह सै, जो बिश्वास की आज्ञाकारिता के जरिये पावै सै। अर ठीक अगला श्लोक बतावै सै के काम किस खात्तर सै: उद्धार का आधार कोनी, बल्के उसका फल सै — हम परमेशवर की खुद की रचना सां, मसीह यीशु म्ह नये बणाये गये सां ताके हम उन भल्ले कामां म्ह चालां जो उसनै म्हारे खात्तर पैहलम तै तैयार करे राखे थे। जो कोए हुकम नै मानै सै, उसनै भेंट नै कमाया कोनी, अर जो कोए इसनै कमाणा कहवै सै, उसनै हुकम नै समझ्या कोनी।)

J. 1 तीमुथियुस 1:13 बिश्वास करण तै पैहले, मै बुराई करण आळा, सताण आळा, अर अन्धेर करण आळा था, तोभी मैरे पै दया होई, क्यूँके यीशु मसीह पै बिश्वास करण तै पैहले मन्त्रे अबिश्वास अर बिना सोच्चे-समझे ये काम करे थे।

एक निंदा करणया + एक सताणया + अन्याय करणया --> पर मन्त्रे दया मिली।

(मेरे निजी विचार — या ध्यान दियो के इस आज्ञाकारिता तै किसके पाप धोए गए। तरसुस के शाऊल नै मसीह के मारग नै मौत तक सताया। उसनै मरद-लुगाईयाँ नै पकड़या अर जेळ म्ह घसीट के ले गया, वो परमेश्वर की निन्दा करण आळा अर उसकी प्रजा नै सताण आळा था। प्रभु खुद उस ताहीं राह म्ह मिल्या, उसनै धरती पै गेरया, अर स्वर्ग तै उसतै बोल्या। अर फेर भी, तीन दिन बाद, हनन्याह नै भेज्या गया के कह दे: उठ, अर बपतिस्मा ले, अर प्रभु का नाम पुकार के अपणे पाप धो ले। जै दमिश्क की राह पै चाणण नै शाऊल के पाप नही धोए, पर आज्ञाकारिता के पाणी नै धो दिए, तो कोए भी न्यू ना सोच्चे के उसके अपणे पाप किसे अर सोखे तरीके तै मितैंगे जो परमेश्वर नै सबतै बड़े पापी नै दिया।)

VII. पवित्र आत्मा का बरदान ल्यो

A. प्रेरितों के काम 19:5 न्यू सुणके उननै प्रभु यीशु के नाम म्ह बपतिस्मा लिया। (6) जिब पौलुस नै उनपै हाथ धरे, तो पवित्र आत्मा उनपै उतरया, अर वे अन्य-अन्य भाषा बोल्लण अर भविष्यवाणी करण लागे।

प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया --> पवित्र आत्मा उनपे उतर आया।

B. रोमियों 8:9 पर जिब के परमेशवर का पवित्र आत्मा थारे म्ह बसै सै, तो थम पापमय लालसा के मुताबिक नही पर पवित्र आत्मा के कहे मुताबिक चाल्लों। जै किसे म्ह मसीह का आत्मा कोनी चाल्दा तो वो परमेशवर का माणस कोनी।

जो कोई मसीह की आत्मा नहीं रखता --> वो उसका नहीं है।

C. प्रेरितों के काम 2:39 क्यूँके या प्रतिज्ञा थम, अर थारी ऊलादां, अर उन सारे दूर-दूर के आदमियाँ खात्तर भी सै जिन ताहीं प्रभु म्हारा परमेशवर अपणे धोरै बुलावैगा।”

यो वादा तेरे खात्तर + तेरे बाळकां खात्तर + अर उन सारया खात्तर है जो दूर-दूर के हैं।

D. इफिसियों 1:13 अर योए थारे गैल भी होया के थमनै सच्चाई का वचन सुणया, अर वो सुसमाचार यो सै, के थमनै वो किस तरियां बचा सके सै, जिब थम मसीह पै बिश्वास करो सों तो परमेशवर थमनै वादे के मुताबिक पवित्र आत्मा देवै सै, यो दिखाण खात्तर के थम परमेशवर के माणस सों। (14) क्यूँके परमेशवर नै म्हारे ताहीं पवित्र आत्मा दिया सै, तो हम यो जाणा सां के परमेशवर म्हारे ताहीं और भी आच्छी

चीज देवैगा, जिसका उसने वादा करया सै, अर यो उस बखत होगा जिन परमेसवर अपने माणसां नै पूरी तरियां तै छुड़ावैगा, उसके अदभुत अनुग्रह की बढ़ाई होवै।

थारे उस पवित्र आत्मा की मुहर लगी जिसका वादा था --> जो म्हारी मीरास का बयाना है।

E. 2 कुरिनियों 1:22

हमपर मुहर लगाई + हमारे हिरदे में आत्मा का बयाना दिया।

समापन

इफिसियों 4:30 परमेसवर के पवित्र आत्मा नै दुखी ना करो, जो उसने थारे ताहीं दिया सै, जो पक्का छुटकारे के दिन थमनै बचा सकै सै।

परमेसवर के पवित्र आत्मा नै दुखी ना करो --> जो उसने थारे ताहीं दिया सै, जो पक्का छुटकारे के दिन थमनै बचा सकै सै.

(म्हारे निजी विचार — पवित्र आत्मा कोए चुन्दे-चुन्दे लोगां के खातर इनाम नहीं है। वो राजा की मोहर है उन पै जो उसके अपने सै, और वो पेशगी है — विरासत का पहला हिस्सा जो पहले ही दे दिया गया — इस बात का के तू उसका सै, छुटकारे के दिन तक। सो सवाल साफ खड़ा है, अर इसे पूछणा जरूरी सै: के तू ने पवित्र आत्मा पाया सै? क्योंकि वचन साफ कहवै सै: जिस किसे के मसीह का आत्मा नहीं, वो उसका नहीं। बिन मोहर की चिट्ठी राजा की चिट्ठी नहीं होदी। बिन आत्मा का मान्स अभी मसीह का नहीं। उसे तब तक टोहो जब तक थारे के वो मिल न जाये।)

अभ्यास प्रश्नोत्तरी

1. अब जिन उननै यो सुण्या, तो उनके मन म्ह चोट लागी, अर वे बोल्ले —

- a) तू क्युं देर लगावै सै?
- b) हे भाईयो, म्हारे नै के करणा चाहिए?
- c) सरदारो, मन्त्रे उद्धार पाने खातर के करना चाहिए?

2. मन फिराओ, अर थम सारे यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो —

- a) पापां की माफी
- b) एक भली अंतरात्मा का जवाब
- c) खरीदी गई मिलकियत का छुटकारा

3. वो काँपदा होया आया, अर बोल्या, महाराज, मन्त्रे उद्धार पावण खातर के करणा चाहिये? अर उननै कहा, प्रभु यीशु मसीह पै बिश्वास कर। अर राति की उसी घड़ी वो —

- a) छुटकारे के दिन खातर मोहर लाग गी थी
- b) यरदन में सात बार डुबकी लगाई
- c) उसनै अर उसके सारे कुण्बे नै फौरन बपतिस्मा लिया

4. नामान यरदन नदी म्ह सात बार डूब्या, और उसका मांस फेर पहल्या जैसा होगया —

- a) जब आराम के दिन आवेंगे
- b) एक छोट्टे बाळक के मांस की तरियां, अर वो शुद्ध हो गया
- c) नये जन्म के धोवण के जरिये

5. सो पाप तै मन फिराओ, और बदल जाओ —

- a) जिसते तुम्हारे पाप मिट जावें
- b) थमनै भी इस्से तरियां नाश होवोगे
- c) संसार का शोक मृत्यु पैदा करै सै

6. जै कोए मसीह की आत्मा नै न्ही राखै —

- a) वो छुटकारे के दिन खातर मोहर लाग रह्या सै
- b) वो परमेश्वर के राज्य म्ह नहीं जा सकदा
- c) वो उसका कोनी सै

7. जिस नै म्हारे पर प्यार करया, अर म्हारे पापां तै म्हारे नै धोया —

- अ) यरदन के पाणी में
- ब) अपने ही लहू में
- स) परमेश्वर के वचन के द्वारा

जवाब की कुंजी: 1-b • 2-a • 3-c • 4-b • 5-a • 6-c • 7-b

यो अध्ययन कस्यां शाखावां मं बंटता सै

RABBIT-TRAIL — गलातियों 3:27 ("मसीह म्ह बपतिस्मा लेणा") अब्राहम की सन्तान की ओड़ खोल्लै सै: "अर जै थम मसीह के हो, तो थम अब्राहम की सन्तान अर वादे के मुताबिक वारिस हो" (गलातियों 3:29)।

RABBIT-TRAIL — इफिसियों 1:14 ("आत्मा का बयाना") मोल ली होई सम्पत्ति के छुटकारे की ओड़ खोल्लै सै — मीरास खुद, अर वो दिन जिब बयाना पूरा-पूरा चुका दिया जावैगा।

यूनानी मुख्य शब्द

“विश्वास करणा” — **G4100 pisteuo** — बिश्वास करणा; भरोसा राखणा; सौंप देणा
प्रभु यीशु मसीह पै विश्वास कर, तो तू उद्धार पावैगा — मन में बिश्वास, कोई भी कदम ठाणे से पहल्यां।

“अंगीकार करणा” — **G3670 homologeo** — एके बात कहणा; खुल्लम-खुल्ला मानणा
मुँह तै अंगीकार करण तै उद्धार होवै सै।

“pashchataap karo” — **G3340 metanoeo** — मन नै फेरणा; पश्चाताप करणा
वो मुड़ण जो इस ताहीं शुरू करै सै — बस दुख ए न्ही, बल्कि परमेश्वर की ओड़ एक नया करया मन।

“बपतिस्मा लेणा” — **G907 baptizo** — डूबकी लगाणा; पाणी म्ह डूब कर फेर उठणा
आज्ञाकारिता का पैहला काम: उसकै गैल गाड़या गया, अर नई जिन्दगी म्ह चालण खातर जिन्दा करया गया।

“धोया” — **G3068 louo** — न्हाणा; पूरे शरीर नै धोणा
म्हारे पापां नै अपणे लहू तै धोया।

“माफी” — **G859 aphesis** — धाल देणा; छोड़णा; माफी देणा
Yeshu Maseeh के नाम म बपतिस्मा लेणा पापां की माफी के खातर — जो बीत्या पाप थे, वे भेज दिए गए।

“जन्म लिया” — **G1080 gennao** — जन्म देणा; जन्म लेणा
जै तांहीं कोए माणस पाणी अर आत्मा तै न्ही जळमै, तो वो परमेश्वर के राज म्ह जा न्ही सकदा।

“अनुग्रह” — **G5485 charis** — अनुग्रह; एक मुफ्त का दान
तुम अनुग्रह के जरिये बिश्वास तै बचाए गए सौ — यो परमेश्वर का दान सै।

HEBREW KEYWORDS ke ibrani shabd

“विश्वास करया” — **H539 aman** — भरोसा करणा; पक्का होणा; बिश्वासी होणा — "आमीन" शब्द की जड़
अब्राहम नै यहोवा पै बिश्वास करया; अर उसनै याहे बात उसकी धार्मिकता के खातर गिण ली।

“साफ” — **H2891 taher** — साफ होणा; पवित्र होणा
nहा, अर धोबन्दा हो जा — नामान का माँस फेर तै एक छोटे बाळक के माँस की तरियां हो ग्या।

“ठीक होगया” — **H7495 rapha** — ठीक करणा; पूरा-भला करणा
उसकी मार तें म्हे ठीक होगे सां।

SOURCES & CREDITS

Scripture: Haryanvi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).